

Activities of Placement Cell G.C.W. Pali (Session 2022-23)

Jio Customer Associate Trainee Programme:-

Jio Customer Associate Trainee Programme के तहत Reliance Jio के एरिया मैनेजर श्री विनय भारद्वाज तथा उनकी टीम द्वारा प्लेसमेंट सेल तथा एन.एस.एस.इकाई के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर करण सिंह यादव के दिशा-निर्देशन में बी.ए.,बी.कॉम,बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष की छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बयासी (82) छात्राओं ने भाग लिया। जिओ टीम ने टेलिकालिंग की जाब के लिए छात्राओं का साक्षात्कार लिया तथा साक्षात्कार में सफल होने वाली छात्राओं को निशुल्क सिम वितरित किए।

1. 17 जनवरी 2023 को रिलायंस जिओ के एरिया मैनेजर श्री विनय भारद्वाज तथा उनकी टीम ने छात्राओं को संबोधित किया तथा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी दी।
2. 19 जनवरी 2023 को रिलायंस जिओ के एरिया मैनेजर तथा उनकी टीम ने छात्राओं का साक्षात्कार लिया।
3. 11 फरवरी 2023 को रिलायंस जिओ की टीम ने छात्राओं को निशुल्क सिम वितरित किए।



“मीडिया में कैरियर ” विषय पर विस्तार व्याख्यान :-

10 फरवरी 2023 को ”मीडिया में कैरियर ” विषय पर प्लेसमेंट सेल तथा हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्राचार्य डॉक्टर करण सिंह यादव के दिशा-निर्देशन में ऑनलाइन माध्यम से विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस विस्तार व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर साताप्पा लहू चव्हाण (प्रोफेसर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, अहमदनगर कॉलेज अहमदनगर) रहे। डॉक्टर चव्हाण ने छात्राओं को मीडिया के क्षेत्र में कैरियर के विविध विकल्पों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आज के युग मीडिया एक आकर्षक कैरियर है। समाज में बदलाव लाने के इच्छुक लोगों के लिए भी मीडिया सबसे अच्छा विकल्प है। आप यहाँ न सिर्फ अपने विचार अच्छे ढंग से रख सकते हैं बल्कि देश-दुनिया की समस्याओं को भी उजागर कर सकते हैं। डॉक्टर चव्हाण ने मीडिया में कैरियर के बारे में छात्राओं की शंकाओं का समाधान बहुत सहजता से किया। इस विस्तार व्याख्यान में चौरानवे (94) छात्राओं ने भाग लिया। यह विस्तार व्याख्यान छात्राओं के लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहा।

राजकीय महिला महाविद्यालय ,पाली रेवाड़ी द्वारा आयोजित मीडिया में कैरियर विषय पर विस्तार व्याख्यान


10 फरवरी 2023
समय प्रातः 12:00 बजे

मुख्य वक्ता
प्रो. डॉ.साताप्पा लहू चव्हाण ,
प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग ,
अहमदनगर कॉलेज,
अहमदनगर(सामाजिक प्रश्नों के अनुसंधाता)



आयोजक
प्राचार्य डॉ करण सिंह यादव

संयोजक
श्रीमती रोशनी
सहायक प्राध्यापक हिंदी



“Career Opportunities in Economic Sector ” विषय पर विस्तार व्याख्यान :-

11 फ़रवरी 2023 को ”Career Opportunities in Economic Sector ” विषय पर प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में प्राचार्य डॉक्टर करण सिंह यादव के दिशा-निर्देशन में विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस विस्तार व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव (एसोसिएट प्रोफेसर इकोनोमिक्स, राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़)रहे। इस विस्तार व्याख्यान में उन्होंने छात्राओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कैरियर निर्माण के विविध विकल्पों से अवगत कराया। छात्राओं की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कैरियर बनाने संबंधी शंकाओं का समाधान किया तथा उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ कैरियर निर्माण कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस विस्तार व्याख्यान में छिहतर (76) छात्राएं उपस्थित रही। यह विस्तार व्याख्यान छात्राओं के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा।



छात्राओं को अर्थशास्त्र विषय में करिअर बनाने के लिए दी जानकारी

भास्कर न्यूज़ | रेवाड़ी

गांव पाली स्थित राजकीय महिला कॉलेज में प्लेसमेंट सेल और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान अलग-अलग विषयों पर चर्चा की गई। राजकीय कॉलेज महेंद्रगढ़ से पहुंचे इकोनोमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एलएन यादव ने छात्राओं को इकोनोमिक्स विषय में करिअर बनाने के लिए अवसरों से अवगत कराया। इसी तरह मीडिया में कैरियर को लेकर हुई कार्यशाला में अहमद नगर कॉलेज के पीजी हिंदी विभाग से



गांव पाली के राजकीय महिला कॉलेज में कार्यशाला आयोजित।

पहुंचे मुख्य वक्ता डॉ. साताप्पा लहू चव्हाण ने छात्राओं को बताया कि वे किस तरह से मीडिया में करिअर बना सकती हैं। प्राचार्य डॉ. करण सिंह यादव ने छात्राओं को पढ़ाई के

साथ ही कैरियर निर्माण कर खुद पर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मंच संचालन प्लेसमेंट सेल इंचार्ज रोशनी ने किया। इस मौके पर स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे।